

तुरंत रिलीज के लिए

एक्शन! ब्रैम्पटन की फिल्म इंडस्ट्री काफी प्रगति कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 मई, 2022) – फिल्म इंडस्ट्री में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का रिकॉर्ड-तोड़ वर्ष रहा है। 2021 में, ब्रैम्पटन ने 80 भिन्न फिल्म, टेलिविजन और कमर्शियल प्रोडक्शन्स की मेजबानी की, जो फिल्म संबंधी गतिविधियों के कुल 553 से अधिक दिन हैं और 2020 से लेकर 90 प्रतिशत की वृद्धि है।

कोविड-19 (COVID-19) संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा के बनाए गए सख्त प्रोटोकॉल्स और स्क्रीन इंडस्ट्री कंपनियों, प्रोडक्शन्स और व्यक्तियों के द्वारा उनका पालन करने के कारण, प्रोडक्शन्स, 2021 की महामारी के पूरे वर्ष में काम जारी रखने योग्य थे।

फिल्म परमिट के लिए आवेदन करने के समय, प्रोडक्शन कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वे, फिल्म एंड टेलिविजन ऑफिस (Film and Television Office) को ब्रैम्पटन में होने वाले अपने अनुमानित सीधे खर्च के बारे में बताएं। 2018 के बाद, यह अनुमान काफी हद तक बढ़ गए हैं, जिससे अनुमानित आर्थिक प्रभाव, 959 प्रतिशत बढ़कर 18 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया और 2021 में सिटी का रेवेन्यू, 147 प्रतिशत बढ़कर लगभग 400,000 डॉलर हो गया। यह वृद्धि, नेटफ्लिक्स (Netflix), ऐपल (Apple) और एमाज़न (Amazon) जैसे अमेरिका के बड़े स्टूडियो प्रोडक्शन्स की रुचि के साथ-साथ, परिवर्तित स्टूडियो स्पेस और अस्थायी स्टैंडिंग सेट्स के लगातार प्रयोग के कारण हुई थी।

हाल ही के प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, जो ब्रैम्पटन में हुए थे:

- एमाज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की नई सीरीज *रीचर (Reacher)*
- पैरामाउंट+ (Paramount+) सीरीज *स्टार ट्रेक: स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स (Star Trek: Strange New Worlds)*
- नेटफ्लिक्स की फीचर फिल्म, *13: द म्यूजिकल (13: The Musical)* और *मैन फ्रॉम टोरोंटो (Man from Toronto)*
- ऐपल+ (Apple+) सीरीज, *सी (See)*
- सी.बी.सी. (CBC) की टेलिविजन सीरीज, *कोरोनर (Coroner)*
- तथा और भी बहुत कुछ!

ब्रैम्पटन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए आदर्श स्थान है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, फिल्मांग और फिल्म-अनुकूलित जगहें, जिनमें शामिल हैं, सिटी के हरे-भरे पार्कलैंड और स्पोर्ट फील्ड्स, रिहायशी नेबरहुड, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, अस्थायी और सिटी की ऐतिहासिक फैसिलिटीज और सीन सेट करने में मदद के लिए भिन्न प्रकार के रोडवे विकल्प ढूंढने के लिए हर आकार के प्रोडक्शन्स की सहायता करते हुए, इंडस्ट्री को कन्सीर्ज-स्टाइल सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन का फिल्म एंड टेलिविजन ऑफिस, प्रोडक्शन जरूरतों को पूरा करने के लिए, रीजन ऑफ पील (Region of Peel), पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police), कन्जर्वेशन अथॉरिटीज

तथा अन्य के साथ मिलकर भी काम करता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ओन्टारियो ग्रीन स्क्रीन (Ontario Green Screen) की मेम्बर है। यह सरकार, इंडस्ट्री, यूनियनों, गिल्ड्स और ट्रेड एसोसिएशन्स के बीच एक पहलकदमी है, जो स्थिर चयन करने के लिए प्रोडक्शन्स और स्टूडियो के सशक्त करती है। ब्रैम्पटन का फिल्म एंड टेलिविजन ऑफिस, शहर में फिल्म के भविष्य के लिए ब्रैम्पटन के फिल्ममेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त करने के तरीकों पर, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) (ACCIDA) के साथ मिलकर भी काम करता है।

ब्रैम्पटन में फिल्मींग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, brampton.ca/film पर जाएं।

हवाले

“ब्रैम्पटन एक शानदार जगह है! यह शहर, रचनात्मक इंडस्ट्री, ग्रीन पहलकदमियों और अवसरों के लिए एक हब है। कोविड-19 महामारी के दौरान फिल्म निर्माण क्षेत्र में इस वृद्धि और शहर पर हुए आर्थिक प्रभाव देखना बेमिसाल है और ब्रैम्पटन में हमारे स्थान, सुविधाओं और उत्तम सेवाओं तथा पेशकशों का प्रमाण है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में स्थापित प्रभावी उपायों और हमारी समर्पित टीमों के कारण, फिल्म और टेलिविजन प्रोडक्शन सेक्टरों में हमारी वृद्धि, महामारी के दौरान असाधारण थी। ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और अब यह छिपी हुई बात नहीं है कि ब्रैम्पटन, रचनात्मक इंडस्ट्री के लिए ठिकाने के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो चुका है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के फिल्म एंड टेलिविजन ऑफिस के समर्पण और उनके द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवा के कारण, हम महामारी के दौरान संपन्न होने और शहर में तीव्र आर्थिक वृद्धि लाने के योग्य हुए हैं। जब फिल्म और टेलिविजन प्रोडक्शन की बात आती है, तो इस सफलता के लिए और ब्रैम्पटन को शानदार जगह के तौर पर परिभाषित करने के लिए टीम को शाबाशी।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।



Media Release

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रॅम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca